



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

17 वैशाख 1946 (श10)  
(सं0 पटना 417) पटना, मंगलवार, 7 मई 2024

---

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना  
7 मई 2024

सं० एम-2-10/2024-32—बिहार विधान सभा का उप निर्वाचन 2024— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 150 की उप धारा (2) और धारा-30 और धारा-56 के अनुसरण बिहार राज्य की विधान सभा में 195-अगिऑव (अ०जा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से कराये जाने वाले उप निर्वाचन से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-100/पूर्व अनु०-1/बिहार-वि.स/1/2024 दिनांक 07.05.2024 (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति में) को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
मिथिलेश कुमार साहु,  
संयुक्त सचिव।

## भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001/तारीख 07 मई, 2024, 17 वैशाख, 1946 (शक)

## अधिसूचना

100/पूर्वअनु0-1/बिहार-वि.स./1/2024:-यतः बिहार राज्य की विधान सभा में 195-अगिऑव (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री मनोज मंजिल के विरुद्ध दोषसिद्धि एवं दंडादेश के परिणामस्वरूप लोक प्रतिनिधित्व नियम, 1951 की धारा-8 तथा संविधान के अनुच्छेद-191 (1)(e) के प्रावधानों के तहत निरर्हित किये जाने के कारण दिनांक 13-02-2024 से स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है; और

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (2) और धारा 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(अ) बिहार राज्य से उक्त 195-अगिऑव (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम के और तदधीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 06 जून, 2024 (बृहस्पतिवार) से पूर्व राज्य की किसी भी अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले एक व्यक्ति को, राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करें;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में:-

(क) नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख: 14 मई, 2024 (मंगलवार)

(ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख: 15 मई, 2024 (बुधवार)

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख: 17 मई, 2024 (शुक्रवार)

(घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा: 01 जून, 2024 (शनिवार)

(ङ.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा: 06 जून, 2024 (बृहस्पतिवार)

नियत करता है; और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से  
सुजीत कुमार मिश्र,  
सचिव,  
भारत निर्वाचन आयोग।

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001/Dated: 07 May, 2024,  
**17 Vaisakha, 1946 (Saka)**

**NOTIFICATION**

*The 7<sup>th</sup> May 2024*

No.100/ES-I/BR-LA/1/2024:-WHEREAS, the seat of Sh. Manoj Manjil, in the Legislative Assembly of the State of Bihar, elected from **195-Agiaon(SC)** Assembly Constituency in the State, has become vacant on 13-02-2024 by reason of his disqualification under Section 8 of the Representation of People Act, 1951 and Article 191(1)(e) of the Constitution; and

**2. WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the said vacancy ;

**3. NOW, THEREFORE**, in pursuance of sub-section (2) of section 150 and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

- (A) calls upon the said **195-Agiaon(SC)** Assembly Constituency in the State of Bihar, to elect, before the 6<sup>th</sup> June, 2024 (Thursday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person belonging to any of the schedule castes of the state, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State ;
- (B) appoints, with respect to the said election:-
  - (a) the 14 May, 2024 (Tuesday) as the last date for making nominations ;
  - (b) the 15 May, 2024 (Wednesday) as the date for the scrutiny of nominations ;
  - (c) the 17 May, 2024 (Friday) as the last date for the withdrawal of candidature;
  - (d) the 01 June, 2024 (Saturday) as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
  - (e) the 06 June, 2024 (Thursday) as the date before which the election shall be completed; and
- (C) fixes the hours from 7.00 A.M to 6.00 P.M as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,  
**SUJEET KUMAR MISHRA,**  
**SECRETARY,**  
**ELECTION COMMISSION OF INDIA.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।  
बिहार गजट (असाधारण) 417-571+50-डी0टी0पी0 ।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>